

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पकड़ीदयाल।

पत्रांक.....363 8/9

पकड़ीदयाल, दिनांक 23.2.24

प्रेषक,

ई0 मनोज कुमार तिवारी,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, पकड़ीदयाल।

सेवा में,

Postmaster,
Sitamarhi, H/O.

विषय :- N.S.C. सत्यापन करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि संवेदक Randhir Kumar Singh, C/o-M/s Superb Construction Pvt. Ltd, S/o- Ramesh Singh, At-PO-Jihuli, PS-Patahi, Motihari, Dist-East Champaran, 845427 के नाम से निर्गत N.S.C. एकरारनामा के रूप में इस कार्यालय में जमा किये हैं। जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिबिम्बित किया गया है।

अनुरोध करना है कि N.S.C. सत्यापन करने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। N.S.C. का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	Account. No.	CIF No.	निर्गत तिथि	परिपक्वता तिथि	राशि
01	020102820637	450125454	13.02.2024	13.02.2029	3,00,000.00
				Total	3,00,000.00

अनु0 - N.S.C. की छायाप्रति ।

विश्वासभाजन

23.2.24

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, पकड़ीदयाल।

23/2/24

OPPO A9 2020
Executive Engineer
RWB WORKS DIVISION
Pakhandaval

Executive Engineer
RWB WORKS DIVISION
23/04/24

GENERAL INSTRUCTIONS

1. Passbook is a record of transactions for the information of the depositor and balance shown in it cannot be claimed legally.
2. It is the duty of the depositor to confirm balance shown in the Passbook from the concerned Post office and post office is legally liable to pay the amount actually available in its record.
3. Always take a printed receipt from the Post office when you hand over the Passbook to the Post office for any purpose.
4. Always keep the Passbook in your personal custody and Post office will not be responsible for any loss of money in case Passbook is handed over to any other person.
5. Do not keep specimen signatures in the Passbook.
6. Check balance after transaction written in the Passbook and contact Postmaster immediately in case of any discrepancy.
7. In case of loss of Passbook, report the matter in writing to the Postmaster immediately.
8. Intimate change of address if any to the Postmaster.
9. Don't hand over blank signed withdrawal forms to any person including authorized agents.
10. Do not appoint Postmasters or authorised agents as messengers for withdrawal of money from your account.

Sallient features of National Savings Schemes/Small Savings

Schemes is available at
<https://www.indiapost.gov.in/FinancialPages/Content/Post-Office-Saving-Schemes.aspx>
 and details are available at
<https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/RTU/RTI-Manual-5.aspx>

NSC Vill 1 Issue

SMTD/MMP: 84330100/SIRAMATHI M.C

IFSC Code : IPOS0000DOP

Account No: 020102820637

CIF (S) / Depositor (S) Name :

1: 450125454 / RAHDHIR KUMAR SINGH

2: /

3: /

Depositor (S) Address: GOMIS Suburb Cons. 4th B.

1. S/O RAMESH SINGH/W N 05 JIHULI/EAST C

2. EAST CHAMPARAN/BIHAR/845427

Account Open Date : 13-02-2021

Type of Account : SELF

Nomination : Yes

Deposit Amount (in Rs.) : 300000

(Rupees Three Lakh)

Maturity Date : 13-02-2029

Maturity Amount (in Rs.): 434710

(Rupees Four Lakh Thirty Four Thousand S

Through Agent : Yes

Signature Of Postmaster:

OPPO A9 2020

Executive Engineer

RWD WORKS DIVISION

Pakaridaval

2022/02/28 12:21

Executive Engineer
 RWD WORKS DIVISION
 Pakaridaval

28/02/2022

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पकड़ीदयाल।

पत्रांक..... 362/21

पकड़ीदयाल,

दिनांक...23/12/2024

प्रेषक,

ई0 मनोज कुमार तिवारी,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, पकड़ीदयाल।

सेवा में,

Branch Manager,
Bank Of Baroda,
Branch Dumra,
Dist-Sitamarhi.

विषय :- Deposit Confirmation Advice. (Fixed Deposit) सत्यापन करने के संबंध में।

महाशय,


उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि संवेदक Superb Construction Pvt. Ltd, At PO-Jihuli, PS-Patahi, Motihari, Dist-East Champaran, 845427 के नाम से निर्गत Confirmation of Deposit. एकरारनामा हेतु इस कार्यालय में जमा किये हैं। जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त किया गया है।



अनुरोध करना है कि Deposit Confirmation Advice. सत्यापन करने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। Deposit Confirmation Advice का विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	खाता संख्या	FD Advice No.	निर्गत की तिथि	परिपक्वता की तिथि	राशि
01	44250300009749	FDR0501245819	05.01.2024	05.01.2029	2,05,000.00

अनु0 - Deposit Confirmation Advice. की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

Confirmed as per
our record



23/12/24
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, पकड़ीदयाल।


OPPO A9 2020

02/11/2024 12:20

Executive Engineer
PWD WORKS DIVISION
Pakardayal

23/12/24



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda

समाधि सूचना / Deposit Confirmation Advice

SUPERB CONSTRUCTION PVT LTD		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	44250300009749
AT PO JIHULI PS PATAHI		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0501245619
DIST MOTIHARI		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	070441354
845427		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	44250200000027
INDIA		शाखा का नाम/Branch Name	DUMRABIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - R/RD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	Favourable EERN WORKS DIVISION, PAKRIDAYAL
नामांकन / Nomination	Y		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	1		
पैन नंबर / PAN No.	AAPCS0215H	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lion Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
205000	05-01-2024	6.50	60 Months 0 Days	05-01-2029	282986

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. खाता दर निम्न में दर्शाया है 2. स्वतः नवीकरण कटौती 3. यदि अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 1 वर्ष के अवधि के अंत में अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दर लागू पर प्रचलित खाता दर के अनुसार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा 4. कोई भी अवधि 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दर 60 दिनों पर प्रचलित खाता दर के अनुसार इसकी ही अवधि के लिए किया जाएगा 5. यदि 15 से अधिक 15 वर्ष तक निगमिता धारक के लिए है 6. निगमिता धारक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इनकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक या 15 से 15 वर्ष तक, यदि लागू हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष अवधि समाप्त पर कर ली जाती है 7. कोई भी अवधि 60 दिनों से अधिक अवधि से हो सकार किया जाये 8. निगमिता धारक का 9. 1 करोड़ से कम की जमा राशि को नवीकरण दर करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् 1% अवधि के अंत में की तिथि पर लागू करी 1 से 1% दंड खाता दर के अनुसार किया जाएगा 10. 1 करोड़ से अधिक अवधि की जमा राशि को नवीकरण दर करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् 1.5% अवधि के अंत में की तिथि पर लागू करी 1 से 1.5% दंड खाता दर के अनुसार किया जाएगा 11. 1 करोड़ से अधिक अवधि की जमा राशि को नवीकरण दर करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् 1.5% अवधि के अंत में की तिथि पर लागू करी 1 से 1.5% दंड खाता दर के अनुसार किया जाएगा 12. निगमिता धारक के अंत में - निगमिता धारक को नवीकरण दर करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् 1% अवधि के अंत में की तिथि पर लागू करी 1 से 1% दंड खाता दर के अनुसार किया जाएगा	1. Rule of Interest is in percentage per annum 2. Automatic Renewal Clause 3. For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise 4. For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise 5. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only 6. A fresh 15G/15H/15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted 7. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 8. Premature Withdrawal Clause 9. Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank 10. Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank 11. In case of 'NON-CALLABLE DEPOSIT' - Premature withdrawal is not allowed
---	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



OPPO A9 2020
2024/03/01 12:20

Executive Engineer
RWD WORKS DIVISION
Pakridayal